

नकली नोट खपाने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे...98,300 रु के जाली नोट व छपाई में उपयोग की जाने वाली समान जप्त..!!

विकास जायसवाल October 29, 2020 3:11 pm Chhattisgarh, Crime Story 2 min read



जांजगीर चांपा। जाली नोट बनाकर आस- पास के क्षेत्रों में खपाने वाले आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला डभरा थाना अंतर्गत फगुरम चौकी क्षेत्र का है। जहाँ आरोपी युवक से 500 रुपये के 195 नग व 50 रुपये के 16 नग नकली नोट कुल 98300 रुपये के साथ छपाई हेतु उपयोग की जाने वाली लैपटाप , प्रिंटर , स्कैनर एवं प्रयुक्त मोटरसायकल जप्त किया गया है।

मिली जानकारी अनुसार मुखबीर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति द्वारा जाली नोट रखकर उसे आसपास के क्षेत्र खपाया जा रहा है। तभी बताए हुए जगह पर दबिश देकर आरोपी राजेन्द्र कुमार गुलशन पिता दूजराम गुलशन उम्र 24 वर्ष साकिन ज्योतिनगर पिहरीद थाना मालखरौदा जिला जांजगीर चांपा (छ 0 ग 0) को पकड़ा गया तथा पकड़कर पूछताछ की गई। उसकी तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 16 नग 50 रुपये के नकली नोट व 95 नग 500 रुपये के नकली नोट को उससे मौके पर बरामद किया गया।

नकली नोट के छपाई में प्रयोग की गई समान

नकली नोट एवं छपाई हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री 01 नग Lenovo कंपनी का लैपटाप मय चार्जर , 01 नग Espon L805 कंपनी का कलर प्रिंटर , एक नग Espon कंपनी का स्कैनर , Espon कंपनी का 07 नग कलर प्रिंटर का इंक बॉटल एवं 01 मोटरसायकल होण्डा साईन जप्त किया गया।

आरोपी के खिलाफ धारा 489 (क) , 489 (ख) , 489 (ग) , 489 (घ) भादवि का होने से आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है। उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी कामिल हक , प्र 0 आरक्षक फलेन्द्र मनहर , आरक्षक योगेश राठौर , बृजपाल बर्मन , योगेश साहू , परमेश्वर मिरी , पदुम कश्यप , मिठू बर्मन , शिव कश्यप का शामिल रहे।

Source: <https://rig24.in/crime-story/%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%9F-%E0%A4%96%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%AA%E0%A5%80/>

